

February 13, 2025

To  
The General Manager  
Department of Corporate Services,  
BSE Limited  
Phiroze Jee Jee Bhoj Tower  
Dalal Street,  
Fort Mumbai – 400001  
Scrip Code: **544302**

The General Manager  
Department of Corporate Services,  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurl Complex, Bandra  
(East), Mumbai – 400051  
Symbol: **INNOVANA**

Sub.: Newspaper advertisement of the Extract of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and nine months ended on December 31, 2024.


Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of the Extract of unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and nine months ended on December 31, 2024 published in the English and Vernacular Language newspaper on February 01, 2025

Please take a note of the same and oblige.

Thank You,

**For Innovana Thinklabs Limited**

  
**Vasu Ajay Anand**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
M. No. – ACS 50483



# खनिज संपदा से समृद्ध पश्चिम बंगाल में फाउंड्री का संचालन करने वाली प्रमुख कंपनी है 'सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड'



**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** कोलकाता आधारित 'सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड' खनिज संपदा से समृद्ध पश्चिम बंगाल में फाउंड्री का संचालन करने वाली प्रमुख कंपनी है।

**यह करती है कंपनी:** 'सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड' की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। वर्ष 2009 में कारोबारी गतिविधि हेतु जमीन खरीदी गई और कारखाने की स्थापना वर्ष 2013 में पूरी हुई और उसी वर्ष वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। तब से कंपनी ने अपनी गतिविधियों में विकास, वृद्धि और वृद्धि की एक श्रृंखला देखी है। रणनीतिक रूप से खनिज समृद्ध पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित 'सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड' नगरपालिका कार्स्टिंग, डवटाइल आयरन पाइप फिटिंग, डवटाइल आयरन ऑटोमोटिव कार्स्टिंग, डवटाइल आयरन कृषि कार्स्टिंग (रोलर्स और कॉसकिल्स), रेलवे कार्स्टिंग और कास्ट-आयरन काउंटरवेट का निर्माण करती है। नगरपालिका कार्स्टिंग का उपयोग मुख्य रूप से सड़क निर्माण में किया जाता है और इन उत्पादों का उपयोग प्रमुख निर्माण परियोजनाओं में तृफान के पानी, सीवरेज, दूरसंचार और अन्य उपयोगिता नेटवर्क के लिए कवर प्रदान करने हेतु किया जाता है। भारत का पूर्वी भाग और भारत के इस्पात केंद्रों में से एक में कंपनी विशेष रूप से सड़क निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक्ससेस कवर और गली गेट्स की डलाई और निर्माण के व्यवसाय के साथ लौह और इस्पात फाउंड्री के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी वैश्विक स्तर पर इन कवरों का निर्माण और निर्यात करती है, क्योंकि कंपनी के उत्पाद ईपन124 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

## प्रवर्तकों का अनुभव



**अशु सक्कर**

42 वर्षीय अशु सक्कर प्रमोटरों में से एक हैं और कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उनके पास इंडियाना यूनिवर्सिटी, केली स्कूल ऑफ बिजनेस, यूएसए से बिजनेस में विज्ञान की स्नातक की डिग्री है, जहां से उन्होंने उच्चतम शैक्षिक उपलब्धि के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 2005 से कंपनी से जुड़े हुए हैं और उनके पास विनिर्माण और निर्यात क्षेत्रों में लगभग 19 वर्षों का अनुभव है। कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने परियोजना प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री, पूर्ण स्वचालित फाउंड्री की स्थापना और नए उत्पाद विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) (पूर्वी क्षेत्र) के एमएसएमईएसब काउंसिल के अध्यक्ष हैं। वे 21 मार्च 2005 से कंपनी के बोर्ड में कार्यरत हैं। वर्तमान में, वे कंपनी के समग्र प्रबंधन, संचालन और व्यवसाय विकास के लिए जिम्मेदार हैं।



**अशु सक्कर**

45 वर्षीय अशु सक्कर प्रमोटरों में से एक हैं और कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशक हैं। उनके पास कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। वह 2000 से कंपनी से जुड़े हुए हैं और उनके पास फाउंड्री उत्पादों के निर्माण और निर्यात में लगभग 24 वर्षों का अनुभव है। कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने परियोजना प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री, पूर्ण स्वचालित फाउंड्री की स्थापना और नए उत्पाद विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के सदस्य भी हैं। उन्हें पहली बार 26 दिसंबर 2000 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



**नेहा सक्कर**

कंपनी प्रवर्तक 44 वर्षीया नेहा सक्कर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है और वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एसोसिएट सदस्य हैं। वे पहले एस.आर.बाटलीबोर्ड एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी थीं।



**प्रियंका सक्कर**


कंपनी प्रवर्तक 42 वर्षीया प्रियंका सक्कर ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और वीआईटी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री है। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हैदराबाद में 8 महीने की इंटरशिप पूरी की है और वहां वित्तीय प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए ई-लर्निंग सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट पूरा किया है।

कंपनी द्वारा निर्मित अन्य उत्पाद समूहों के अनुप्रयोग ऑटोमोटिव, कृषि उपकरण और ऐसे अनुप्रयोगों में हैं जहां वजन संतुलन और स्थिरता महत्वपूर्ण हैं। कंपनी की उत्पादन इकाई आधुनिक रोबोटिक उपकरणों से सुसज्जित है, जो गुणवत्ता मानकों और नियंत्रण को सुनिश्चित करती है और टिकाऊ प्रथाओं का पालन करती है, जिससे ग्राहकों को उनकी सभी कार्स्टिंग जरूरतों के लिए वन-स्टॉप शॉप सॉल्यूशन मिलता है।

कंपनी अपने उत्पादों को मुख्य रूप से यूरोपीय और मध्य पूर्वी बाजारों में निर्यात करती है। कंपनी ने मध्य पूर्व में विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं जैसे न्यू हमाद पोर्ट प्रोजेक्ट (कतर), न्यू टर्किश एयर बेस (कतर), ओमान में हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना, दुबई दक्षिण विकासात्मक परियोजना, लुसैल फीफा स्टेडियम परियोजना, दोहा में अल बरवाह परियोजना आदि के लिए सफलतापूर्वक डिजाइन समाधान और कार्स्टिंग दिए हैं। कंपनी ने अपने उत्पाद जल पाइप नेटवर्क, रेलवे, काउंटरवेट और कृषि उद्योग के लिए कार्स्टिंग का उत्पादन किया है।

कंपनी की पश्चिम बंगाल राज्य में झांझरा गांव रोड, पी.एस. फरीदपुर, पी.ओ. लाउदोहा, दुर्गापुर, जिला बर्दवान - 713385, में एक विनिर्माण इकाई और गोदाम है, लगभग 20 एकड़ भूमि में फैली हुई है। कंपनी की विनिर्माण इकाई की उत्पादन क्षमता 72,000 टन प्रति वर्ष है।

कंपनी ने 20 से अधिक राज्यों में अपने उत्पाद पहुंचा रही है। इसके अलावा कंपनी अमेरिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, इटली, केन्या, मोल्दोवा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन और वियतनाम सहित 15 से अधिक देशों में उत्पादों का निर्यात कर रही है। कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आइएसओ 9001: 2015 से प्रमाणित है। कंपनी के उत्पादों में शाकनाशी/ खरपतवारनाशक, कवकनाशी, पादप वृद्धि नियामक, कीटनाशक शामिल हैं। विनिर्माण कार्यों के साथ-साथ, कंपनी फसल सुरक्षा कंपनियों के लिए अनुबंध निर्माण, जॉब वर्क और टोल निर्माण सेवाएं भी प्रदान करती है।



मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। कंपनी ने अपने अधिकांश उत्पादन मापदंडों को स्वचालित और उन्नत किया है, जैसे कि रेत संयंत्र, रासायनिक और यांत्रिक प्रयोगशाला, स्वचालित उच्च दबाव मॉल्डिंग लाइनें, स्वचालित धातु डालना और बहुत कुछ।

इसके अलावा, कंपनी ने पेंटिंग और पीसने के लिए अभ्यास में सर्वोत्तम रोबोटिक हथियारों के साथ रोबोटिक्स में भी कदम रखा है। इस तरह के प्रौद्योगिकी उन्नयन ने कंपनी को कई तरीकों से लाभान्वित किया है जैसे - कम बिजली की खपत, बेहतर उत्पादन क्षमता, उच्च उपयोग दर और उच्च लाभ मार्जिन। ऐसे कारकों से बाजार में कंपनी की वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

**कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 133.30 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 0.87 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ, वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 126.23 करोड़ रुपए का राजस्व एवं 1.28 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ और वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 156.87 करोड़ रुपए का राजस्व और 3.94 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। वित्तीय परिणामों से स्पष्ट है कि कंपनी साल दर साल अच्छे वित्तीय

परिणाम प्रस्तुत कर रही है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 2.52 फीसदी का कर पश्चात शुद्ध लाभ मार्जिन अर्जित किया है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की असेट्स 233.32 करोड़ रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस 40.05 करोड़ रुपए था। कंपनी का कर्ज इविचटी अनुपात की वर्ष 2024 में करीब 2 दर्ज किया गया है।

**नोट:** यह लेख निवेश सलाह नहीं है।

एम. के. एक्जिम (इंडिया) लिमिटेड							
पंजीकृत कार्यालय : जी-1/150, गार्गेंड जोन, ई.पी.आई.पी. सीतापुर, टॉक रोड, जयपुर - 302022							
सीआईएन: L63040RJ1992PLC007111							
ई-मेल: mkexim@gmail.com वेबसाइट: website: www.mkexim.com TEL. NO. 0141-3837501							
अनुलग्नक - X							
दिसम्बर 31, 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनअकेक्षित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों का सार (रुपये लाख में)							
विवरण	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	तिमाही समाप्त	नौमाही समाप्त	नौमाही समाप्त	वार्षिक समाप्त	
	31.12.2024 (अनअकेक्षित)	30.09.2024 (अनअकेक्षित)	31.12.2023 (अनअकेक्षित)	31.12.2024 (अनअकेक्षित)	31.12.2023 (अनअकेक्षित)	31.03.2024 (अकेक्षित)	
परिचालनों से कुल आय	2422.53	2232.16	1938.45	6697.59	7276.55	9433.13	
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा असाधारण मदों से पूर्व)	743.97	709.96	585.05	1938.74	1639.61	2063.87	
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	743.97	709.96	585.05	1938.74	1639.61	2063.87	
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा असाधारण मदों के बाद)	556.67	531.26	437.83	1450.74	1226.70	1531.80	
अवधि हेतु कुल व्यापक आय अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात)	556.67	531.26	437.83	1450.74	1226.70	1531.80	
समाप्त अंश पूंजी	4036.73	4036.73	2691.15	4036.73	2691.15	4036.73	4111.22
संचय (पुनर्व्ययोजन संघय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित पुनर्व्ययोजन में दर्शाया गया है।							
प्रति शेयर अर्जन (₹ 10/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचलनी हेतु) -							
मूल:	1.38	1.32	1.08	3.59	3.04	3.79	
तल:	1.38	1.32	1.08	3.59	3.04	3.79	
<b>नोट:</b> 1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किये गए तिमाही और नौमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। एकल (स्टैंडअलोन)/समेकित (कंसोलिडेटेड) तिमाही एवं नौमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <a href="http://www.bseindia.com">http://www.bseindia.com</a> और कंपनी की वेबसाइट <a href="http://www.mkexim.com">http://www.mkexim.com</a> पर भी उपलब्ध है।							
बोर्ड के आदेश द्वारा एम. के. एक्जिम (इंडिया) लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर / - प्रसूलीधर दायलानी डीआईएन: 08267828							
स्थान: मुंबई दिनांक: 12.02.2025							

## तिजारिया पोलिपाइप्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- बी-9 विनायक कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड, जयपुर-302006

सीआईएन: L25209RJ2006PLC022828, टेलीफैक्स:0141-2333722 ईमेल: INVESTORS@TJAIRA-PIPES.COM (रुपये लाखों में)

### 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अन-ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही अनअकेक्षित			समाप्त नौ माही अनअकेक्षित		
	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
परिचालनों से कुल आय व अन्य	5.79	4.50	3.00	23.66	15.13	33.74
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, असाधारण और या असाधारण वस्तुओं से पहले)	(73.89)	(92.71)	(68.93)	(228.21)	(218.48)	(289.84)
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(73.89)	(93.06)	(68.93)	(228.57)	(220.28)	(291.64)
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(73.89)	(93.06)	(68.93)	(228.57)	(220.28)	(291.64)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए कर पश्चात) समावेशित लाभ/(हानि) और अन्य समावेशित आय (कर पश्चात)	(73.89)	(93.06)	(68.93)	(228.57)	(220.28)	(291.64)
समाप्त अंश पूंजी (₹.10/- प्रति का अंकित मूल्य)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66
आय प्रति शेयर (₹. 10/- प्रति का अंकित मूल्य) (वार्षिक नहीं)	(0.26)	(0.33)	(0.24)	(0.80)	(0.77)	(1.02)
तदुक्त	(0.26)	(0.33)	(0.24)	(0.80)	(0.77)	(1.02)

**टिप्पणियाँ:**  
1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुमति की गई है और 12 फरवरी, 2025 को अद्यतित बैलक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।  
2. जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनर्व्ययोजित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।  
3. 31 दिसंबर, 2024 तक कंपनी की कोई सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।  
4. ऑपरेटिंग सेगमेंट: कंपनी मुख्य रूप से एक सेगमेंट यानी पाइप और टैवरटाइल्स में काम करती है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए विचार किए जाने वाले उत्पाद हैं: 1) पाइप में एचडीपीई, पीवीसी पाइप, सिंचाई प्रणाली शामिल हैं;

निदेशकों की ओर से कुरी/ प्रवीण जैन तिजारिया प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 00115002)

## 'एरिस्टो बायो-टेक एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड' को मिले करीब 3.31 करोड़ रुपए के आर्डर



**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** गुजरात आधारित 'एरिस्टो बायो-टेक एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड' विभिन्न कीटनाशकों का निर्माण, आपूर्ति, पैकेजिंग और जॉब वर्क सेवाएं प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी को दो अलग-अलग पार्टियों से दो खरीद आदेश प्राप्त हुए हैं, खरीद आदेशों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. विभिन्न कृषि रसायनों की आपूर्ति के लिए 2,69,66,000/- (दो करोड़ उनसठ लाख छियासठ हजार रुपये मात्र) रुपए लगभग का य आदेश मिला है।  
2. विभिन्न कृषि रसायनों की आपूर्ति के लिए 62,24,480/- (बासठ लाख चौबीस हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र) रुपए लगभग का य आदेश मिला है। इस कार्य आदेश से कंपनी के शाहक आधार में वृद्धि होने और कंपनी की लाभप्रदता में योगदान होने की उम्मीद है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि इस विकास का कंपनी के व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कंपनी इस परियोजना को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए तैयार है।

**यह करती है कंपनी:** वर्ष 2005 में 'एरिस्टो बायो-टेक एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड' का इन्कॉर्पोरेशन हुआ था। एरिस्टो बायो-टेक एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड एक एग्रीकैमिकल कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से विभिन्न कीटनाशकों के निर्माण, निर्माण, आपूर्ति, पैकेजिंग और जॉब वर्क सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है। कंपनी देश में तो अपने उत्पाद वितरित करती ही है, साथ ही कीटनाशक, शाकनाशी, कवकनाशी, पादप विकास नियामक और अन्य विभिन्न प्रकार के कृषि रसायन उत्पादों का निर्यात भी करती है। एरिस्टो बायो-टेक और लाइफ साइंसेज संभवनाओं से भरे एग्रीकैमिकल क्षेत्र में कार्यरत है जहां कई संस्थाएं कीटनाशकों और उर्वरकों के उत्पादन और वितरण में काम करती हैं। ये सभी संस्थाएं फसल की पैदावार और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देती हैं।

## innovana® Thinklabs Limited

## इनोवना थिंकलैब्स लिमिटेड

सीआईएन: L72900RJ2015PLC047363

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर डी-41, पत्रकार कॉलोनी, जवाहर नगर के पास, मोती झूंरी विस्तार योजना, राजापार्क, जयपुर, राजस्थान - 302 004  
संपर्क नंबर: +91-141-4919128/29; ई-मेल आईडी: cs@innovanathinklabs.com, वेबसाइट: www.innovanathinklabs.com

### 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अनअकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का उद्घरण (रुपये लाखों में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		
		31-12-2024 (अनअकेक्षित)	31-09-2024 (अनअकेक्षित)	31-12-2023 (अनअकेक्षित)	31-12-2024 (अनअकेक्षित)	31-12-2023 (अनअकेक्षित)	31-03-2024 (अकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल राजस्व	2,998.38	2,776.48	2,979.77	8,553.83	8,914.90	11,521.17
2.	परिचालन लाभ (पीबीआईडी)	1,766.17	1,721.09	1,661.36	4,990.22	4,750.48	5,928.83
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	1,452.34	1,396.69	1,493.95	4,167.22	4,314.65	5,301.09
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	1,183.55	1,104.66	1,130.25	3,320.63	3,242.01	4,125.77
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	1,183.55	1,104.66	1,130.25	3,320.63	3,242.01	4,170.36
6.	इविचटी शेयर पूंजी (10/- रुपए प्रति)	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
7.	अन्य इविचटी (रिजर्व)	-	-	-	-	-	14,281.21
8.	प्रति शेयर आय: आधारभूत (रुपये में)	5.77	5.39	5.51	16.20	15.81	20.13
	तनुकृत (रुपये में)	5.77	5.39	5.51	16.20	15.81	20.13

**टिप्पणी:** सेबी (एलओडीआर) के विनियम 47(1)(बी) के अनुपालन में कंपनी के एकल वित्तीय परिणामों की सूचना। (रुपये लाखों में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		
		31-12-2024 (अनअकेक्षित)	31-09-2024 (अनअकेक्षित)	31-12-2023 (अनअकेक्षित)	31-12-2024 (अनअकेक्षित)	31-12-2023 (अनअकेक्षित)	31-03-2024 (अकेक्षित)
1.	व्यवसाय	1,111.08	869.43	1,216.80	3,249.68	4,281.08	4,851.33
2.	परिचालनों से कुल राजस्व	1,241.67	1,257.99	1,529.22	3,952.11	5,025.78	5,883.02
3.	परिचालन लाभ (पीबीआईडी)	1,028.64	1,026.81	1,137.80	3,254.50	3,652.45	4,181.70
4.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	956.98	985.95	1,104.89	3,104.98	3,545.89	4,028.02
5.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	703.14	734.03	843.36	2,314.51	2,652.32	3,031.87

**टिप्पणी:**  
\* सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर उपरोक्त समाप्त तिमाही और समाप्त नौमाही के अनअकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। अनअकेक्षित एकल और समेकित तिमाही और नौमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर एवं [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट [www.innovanathinklabs.com](http://www.innovanathinklabs.com) पर भी उपलब्ध है।

स्थान: जयपुर दिनांक: 12 फरवरी, 2025



निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से कपिल गर्ग पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन: 07143551



### ROYAL CUSHION VINYL PRODUCTS LIMITED

Regd. Office : 60 CD Shlok Govt.Ind.Estate, Charkop, Kandivali (West), Mumbai-400 067  
CIN: L24110MH1983PLC031395 Website: www.rcvp.in; Email: legalho83@gmail.com

#### EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DEC, 2024

Sr. No.	Particulars	(Amount in lakh Rs.)					
		Quarter ended			Year ended		
		31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations (net)	1,606.10	1,788.64	1,685.73	5,069.13	4,909.99	6,675.73
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(147.61)	(85.43)	(41.49)	(250.56)	433.38	547.02
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(147.61)	(85.43)	(41.49)	(250.56)	23,293.82	29,420.86
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(149.57)	(85.43)	(41.49)	(252.53)	23,293.82	29,420.86
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(150.47)	(85.46)	(43.71)	(299.86)	23,287.15	32,951.66
6	Paid up Equity Share Capital	3,658.85	3,658.85	3,658.85	3,658.85	3,658.85	3,658.85
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of previous year)						(10,254.84)
8	Net Worth						(6,596.00)
9	Earnings Per Share (before and After extraordinary items) (of Rs.10/- each) :						
	(a) Basic	(0.41)	(0.23)	(0.20)	(0.69)	109.86	138.48
	(b) Diluted	(0.41)	(0.23)	(0.20)	(0.69)	109.86	138.48

**NOTES :**  
1. The above audited financial statements have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meeting held on 12/02/2025  
2. Figures of the previous periods have been regrouped / reclassified / rearranged wherever considered necessary.  
3. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of quarterly financial results are available on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com and on the Company's website www.rcvp.in.

For Royal Cushion Vinyl Products Limited  
Sd/-  
Mahesh Shah  
Managing Director  
(DIN: 00054351)

Place : Mumbai  
Date : 12/02/2025

### ARTIFICIAL ELECTRONICS INTELLIGENT MATERIAL LIMITED

(Formally Known as DATASOFT APPLICATION SOFTWARE (INDIA) LIMITED)  
CIN: L31100TN1992PLC156105

Registered Office: No 42, Commercial Complex, Hiranandani Parks, Senthamangalam Village, Vadakkupattu, Chengalpattu, Tamil Nadu, India, 603204

#### Statement of Unaudited financial results for the Quarter and Half Year ended on 30/09/2024

Sr. No.	Particulars	(Rs. In Lakhs except EPS)		
		Quarter Ending on 30.09.2024	Year to Date Figures 31.03.2024	Corresponding Three Months Ended in the Previous Year 30.09.2023
1	Total income from operations	361.50	244.62	36.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	28.87	23.95	11.40
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	28.87	23.95	11.40
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	20.75	17.31	8.44
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	20.75	17.31	8.44
6	Equity Share Capital	113.18	113.18	113.18
7	Other Equity	-39.68	-87.85	-84.33
8	Face Value of Equity Share Capital	10/-	10/-	10/-
9	Earnings Per Share (Basic / Diluted)	1.83	1.53	0.75

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com.

Date: 13.02.2025  
Place: Chengalpattu

For, Artificial Electronics Intelligent Material Limited  
(Formally Known as Datasoft Application Software (India) Limited)  
Sd/-  
Uma Nandam  
Whole-time Director  
DIN: 02220048

### Oswal Minerals Limited

Regd. Office: # 811, Police Station Road, Pallavaram, Chennai-600043  
CIN: L30060TN1996PLC035973, E-Mail: info@oswminerals.com; Website: www.oswminerals.com  
Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2024  
(\* in Crores except EPS)

SI No.	Particulars	Quarter Ended		
		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total Income from Operations (Net)	489.09	396.53	1610.69
2	Net Profit from Ordinary Activities before Tax, Exceptional and / or extraordinary items	(20.61)	(10.14)	16.69
3	Net Profit for the period after Tax, Exceptional and / or Extraordinary items	(20.61)	(10.14)	16.69
4	Paid-up Equity Share Capital (Rs.10/- each)	7.55	7.55	7.55
5	Earnings Per Share (EPS) Basic and diluted EPS before & after Extraordinary items (not annualized)	(27.30) (27.30)	(13.43) (13.43)	22.10 22.10

**Notes :**  
1. The above Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and there after approved by the Board of Directors at its meeting held on 12<sup>th</sup> February, 2025.  
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the results is available on the Stock Exchange website (www.mse.in/index.aspx) and on the Company's website (www.oswminerals.com)

FOR AND ON BEHALF OF BOARD  
Sd/-  
MOHANLAL BHARATH KUMAR JAIN  
WHOLE TIME DIRECTOR  
DIN: 01252633

Place: Bangalore  
Date: 12.02.2025

### HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

(A Government of India Enterprise)  
Post bag No. 18, Ambalamugal PO, Ernakulam District, Kerala - 682 302, India  
CIN: L99999KL 1960G0I082753

#### EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2024

Sl. No.	Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
		(Rs. in lakhs)						(Rs. in lakhs)					
		Quarter ended			Nine Month ended			Quarter ended			Nine Month ended		
		31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income from Continuing Operations	17350.60	17947.55	19000.74	41672.85	53142.33	72058.10	17350.60	17947.55	19000.74	41672.85	53142.33	72058.10
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) from Continuing Operations	(3629.11)	(1380.35)	(1801.60)	(8565.79)	(4317.68)	(5531.70)	(3629.11)	(1380.35)	(1801.60)	(8565.79)	(4317.68)	(5531.70)
3.	"Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from Continuing Operations"	(7876.69)	(1380.35)	(1801.60)	(12813.37)	(4317.68)	(5531.70)	(7876.69)	(1380.35)	(1801.60)	(12813.37)	(4317.68)	(5531.70)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from Continuing Operations	(7876.69)	(1380.35)	(1801.60)	(12813.37)	(4317.68)	(5531.70)	(7876.69)	(1380.35)	(1801.60)	(12813.37)	(4317.68)	(5531.70)
5.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) from Discontinued Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(39.12)	29.66	34.66	16.59	82.34	122.72
6.	Net Profit/ (Loss) for the period (4+5)	(7876.69)	(1380.35)	(1801.60)	(12813.37)	(4317.68)	(5531.70)	(7915.81)	(1350.69)	(1766.94)	(12796.78)	(4235.34)	(5408.98)
7.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(8084.14)	(1338.08)	(1211.89)	(12826.45)	(3390.29)	388.00	(7915.17)	(1350.04)	(1766.94)	(12794.85)	(4235.34)	(62.87)
8.	Equity Share Capital	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96	6726.96
9.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						(103160.64)						(109832.07)
10.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)												
	1. Basic and Diluted (for Continuing Operations)	(11.74)	(2.05)	(2.68)	(19.08)	(6.43)	(8.23)	(11.74)	(2.05)	(2.68)	(19.08)	(6.43)	(8.23)
	2. Basic and Diluted (for Discontinued Operations)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.03)	0.03	0.05	0.01	0.12	0.18
	3. Basic and Diluted (for Continuing and Discontinued Operations)	(11.74)	(2.05)	(2.68)	(19.08)	(6.43)	(8.23)	(11.77)	(2.02)	(2.63)	(19.07)	(6.31)	(8.05)

**NOTE:**  
1. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Annual Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulations 33 & 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of these Financial Results are available on the website of Stock Exchanges [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.hocindia.com](http://www.hocindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors of HOCL  
Sd/-  
B. Sajeev  
Chairman & Managing Director  
DIN 09344438

Place: Ernakulam, Kerala  
Date : 12<sup>th</sup> February 2025

### innovana® INNOVANA THINKLABS LIMITED

CIN : L72900RJ2015PLC047363

Registered Office: Plot No. D-41, Patrakar Colony, Near Jawahar Nagar, Moti Dungri Vistar Yojna, Raja Park, Jaipur, Rajasthan - 302004  
Website: [www.innovanathinklabs.com](http://www.innovanathinklabs.com) E-mail: [cs@innovanathinklabs.com](mailto:cs@innovanathinklabs.com) Tel. 0141-4919128, 29

#### Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31 December 2024

(Rs. in Lacs, unless otherwise stated)

S.No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31-Dec-24	30-Sep-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Mar-24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income From Operations	2,998.38	2,776.48	2,979.77	8,553.83	8,914.90	11,521.17
2	Operating Profit (PBDIT)	1,766.17	1,721.09	1,661.36	4,990.22	4,750.48	5,928.83
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax	1,452.34	1,396.69	1,493.95	4,167.22	4,314.65	5,301.09
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax	1,183.55	1,104.66	1,130.25	3,320.63	3,242.01	4,125.77
5	Total Comprehensive Income for the period	1,183.55	1,104.66	1,130.25	3,320.63	3,242.01	4,170.36
6	Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00
7	Other Equity (Reserves)	-	-	-	-	-	14,281.21
8	Earning Per Share:						
	Basic (in Rs.)	5.77	5.39	5.51	16.20	15.81	20.13
	Diluted (in Rs.)	5.77	5.39	5.51	16.20	15.81	20.13

Note: \*Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR): (Rs. in Lacs, unless otherwise stated)

S.No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31-Dec-24	30-Sep-24	31-Dec-23	31-Dec-24	31-Dec-23	31-Mar-24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Turnover	1,111.08	869.43	1,216.80	3,249.68	4,281.08	4,851.33
2	Total Income From Operations	1,241.67	1,257.99	1,529.22	3,952.11	5,025.78	5,883.02
3	Operating Profit (PBDIT)	1,028.64	1,026.81	1,137.80	3,254.50	3,652.45	4,181.70
4	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax	956.98	985.95	1,104.89	3,104.98	3,545.89	4,028.02
5	Net Profit / (Loss) for the period After Tax	703.14	734.03	843.36	2,314.51	2,652.32	3,031.87

\*The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine Months Ended unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Standalone and Consolidated Quarterly and Nine Monthly Financial Results are available on websites of the Stock Exchanges i.e. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and also on Company's website at [www.innovanathinklabs.com](http://www.innovanathinklabs.com).



For and on behalf of the Board of Directors  
Kapil Garg  
Whole Time Director  
DIN: 07143551

Place: Jaipur  
Date: February 12, 2025

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

FINANCIAL EXPRESS

### GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMITED

CIN: L67120WB1987PLC042960  
REGD OFF:- 18, Ranindrasarani, Paddar Court, Gate no.17, Room no.17, Kolkata-700001  
West Bengal EMAIL : [goenkabusiness1987@gmail.com](mailto:goenkabusiness1987@gmail.com)  
Extract from the Unaudited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2024

Sr. No.	Particulars	(All amounts in Rs. Lakhs except earnings per share data)		
		Quarter ended on 31-Dec-2024	Year ended on 31-Mar-2024	Corresponding 3 months ended in the previous year on 31-Dec-2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from Operations	973.09	8596.07	2004.44
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	(93.87)	338.77	183.85
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	(93.87)	338.77	183.85
4.	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	(72.37)	219.26	136.13
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(55.18)	232.90	140.60
6.	Equity Share Capital	1300.01	1300.01	1300.01
7.	Earnings Per Share (of Rs 10/- each) (for continuing and discontinued operations):			
	1. Basic	(0.42)	1.79	1.08
	2. Diluted	(0.42)	1.79	1.08

**Notes:**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Un-Audited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and also available on the Company's website [www.goenkabusinessfinance.com](http://www.goenkabusinessfinance.com)  
2. The above Quarterly Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on February 12, 2025.

Date: February 12, 2025  
Place: Ahmedabad



For Goenka Business & Finance Limited  
Sd/-  
Yasin Gori  
(Whole Time Director)  
DIN: 08221979

### Pharmads Pharmaceuticals Limited

CIN: L52520KA1989PLC173979

Registered Office: Unit #201, Brigade Rubix, 20/14, HMT Factory Road, Peenya Plantation, Bangalore-560013, INDIA. Phone: 080-49784319,  
E-mail: [compliance@pharmads.com](mailto:compliance@pharmads.com), Website: [www.pharmads.com](http://www.pharmads.com)

#### Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2024

(All amounts in INR Lakhs, except per share detail)

SI. No.	Particulars	Consolidated		
		Quarter ended 31-12-2024	Nine Months ended 31-12-2024	Quarter ended 31-12-2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1.	Total income from operations (net)	470.93	1,467.93	